

# युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा अभियान

■ पुणे, नवभारत न्यूज नेटवर्क. तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक रूप से एक डिजिटल राष्ट्र के रूप में भारत परिवर्तित हो गया है. हालांकि इससे लोगों को काफी सुविधा भी मिली है, लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इन्टरनेट की बढ़ती तीव्रता और 5G जैसी टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रसार के बीच कमजोरियां कई गुना बढ़ गई हैं. इस जोखिम के महत्वपूर्ण कारणों में से एक साइबर सुरक्षा के बारे में कम जानकारी का होना है. हम मानते हैं कि साइबर सुरक्षा में अग्रणी होने के नाते, समाज की डिजिटल जीवन शैली की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है. उस जिम्मेदारी के साथ, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और भलाई में योगदान देना चाहते हैं. अनुपमा काटकर, चेयरपर्सन, क्विक हील फाउण्डेशन ने कहा कि इन्टरनेट सर्वव्यापी है, और इसी तरह साइबर अपराध भी इसके समानान्तर हैं. क्विक हील फाउण्डेशन (क्यूएचएफ), साइबर सुरक्षा के दायित्व के रूप में,



हमें आशा है कि हमारा प्रयास छात्रों को सुरक्षित इन्टरनेट कार्य- प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और समाज में साइबर सुरक्षा जागरूकता फैलाने वाले साइबर योद्धा बनाने में सहयोग करेगा. क्विक हील फाउण्डेशन (क्यूएचएफ) का उद्देश्य 'साइबर सुरक्षा के लिए साइबर शिक्षा' अभियान के तहत युवाओं को विश्वास के साथ प्रशिक्षित करना है कि छात्र, एक बार प्रशिक्षित होने के बाद, पूरे समाज में जागरूकता लाने में सहायक होंगे. छात्रों को इस पहल में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए, हम अपने 'अर्न एण्ड लर्न' कार्यक्रम के तहत उन्हें प्रोत्साहन राशि देंगे.

---

देश के युवाओं को इन्टरनेट के सही उपयोग के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी लेता है.